

唵、降三世よ。吽、發吒(忿怒、降伏の密語)。

○中 瓶(大日)

ॐ वज्रधतु वं

Oṃ vajra-dhātu vaṃ.

唵、金剛界よ。鍔(種子)。

○赤 瓶(阿閼)

ॐ अक्षयहि वं

Oṃ akṣobhaya hūṃ.

唵、阿閼よ。吽(種子)。

○黄 瓶(寶生)

ॐ रत्नसिंभव वं

Oṃ ratna-saṃbhava trāṃ.

唵、寶生よ。怛落(種子)。

○青 瓶(世自在)

ॐ लोकाश्वराहृषि वं

Oṃ loka-īśvara-rāja hriḥ.

唵、世自在王よ、紇里(種子)。

○黑 瓶(不空成就)

ॐ अमोघसिद्धे वं

Oṃ amogha-siddhe aḥ.

唵、不空成就よ。惡(種子) (已上繞瓶)。

○東 瓶(普賢)

ॐ सम्यक्सम्यक्सुखं वं

Oṃ samanta-bhadrāya svāhā.

唵、普賢のために。莎訶。

○南 瓶(彌勒)

ॐ मित्रेय सुखं वं

Oṃ maitreya svāhā.

唵、彌勒のために。莎訶。

○西 瓶(除蓋障)

ॐ सर्वभयान्जय वं

Oṃ sarva-bhayaṃ jahayāva svāhā.

唵、一切の障礙を破去せよかし。莎訶。

○北瓶(離諸惡趣)

ॐ सर्वसुखाय उद्यताय अद्य स्वहा

Oṃ sarva-sūkhataiṃ udḡgataiṃ ahaye svāhā.

唵、一切の惡趣は我に於て離去せり。莎訶。

○佛部加持

ॐ सर्वतागतनिर्मलधिष्ठितवज्रतृष्ठा

Oṃ sarva-tathāgata-abhisambodhi-dṛṣṭha-vajra tiṣṭha.

唵、一切如來の現證覺たる堅固なる金剛よ。起てよかし。

○金剛部加持

ॐ वज्रसत्त्वाधिष्ठिताय ह्रीं

Oṃ vajra-sattva adhiṣṭhitāsva hūm.

唵、金剛薩埵よ、我れを加持せよかし。吽(種子)。

○寶部加持

ॐ वज्ररत्नाधिष्ठिताय ह्रीं

Oṃ vajra-ratna adhiṣṭhitāsva hūm.

唵、金剛寶よ。我れを加持せよかし。怛羅(種子)

○蓮華部加持

ॐ वज्रपादाधिष्ठिताय ह्रीं

Oṃ vajra-padma adhiṣṭhitāsva mām hrih.

唵、金剛蓮華よ、我れを加持せよかし。頡利(種子)。

○羯磨部加持

ॐ वज्रकार्याधिष्ठिताय ह्रीं

Oṃ vajra-karma adhiṣṭhitāsva mām aḥ.

唵、金剛業よ。我れを加持せよかし。婀(種子) (已上五瓶加持)

○大日灌頂(白瓶)

ॐ सर्वतागतनिष्ठा

Oṃ sarva-tathāgata-niṣṭha hūm.

唵、一切如來自在者の灌頂よ。吽(種子)。

○東佛灌頂(赤瓶)

ॐ वज्रसत्त्वाभिषिन्ताय ह्रीं

Oṃ vajra-sattva abhiṣiñca mām hūm.

唵、金剛薩埵よ、我れに灌頂せよかし。吽(種子)。

○南佛灌頂(黃瓶)

ॐ वज्ररत्नाभिषिन्ताय ह्रीं

Oṃ vajra-ratna abhiṣiñca mām trāh.

唵、金剛寶よ。我れに灌頂せよかし。怛羅(種子)。

○西佛灌頂(青瓶)

ॐ वज्रपद्म अभिसिंहा मणिं ह्रीं

Oṃ vajra-padma abhiṣiñca māṇi hriḥ.

唵、金剛連華よ。我れに灌頂せよかし。頡利(種子)。

○北佛灌頂(黒瓶)

ॐ वज्रकर अभिसिंहा मणिं ह्रीं

Oṃ vajra-karma abhiṣiñca māṇi hriḥ.

唵、金剛業よ。我れに灌頂せよかし。惡(種子)。(已上五瓶灌頂)

○佛部繫鬘

ॐ सर्वतथागतसिंहवज्र अभिसिंहा मणिं ह्रीं

Oṃ sarva-tathāgata-abhisambodhi-vajra abhiṣiñca māṇi hriḥ.

唵、一切如來現證覺の金剛よ。我れに灌頂せよかし。鍔(種子)。

○金剛部繫鬘

ॐ वज्रसत्त्वस्य अभिसिंहा मणिं ह्रीं

Oṃ vajra-sattva-māla abhiṣiñca māṇi hriḥ.

唵、金剛薩埵の鬘よ。我れに灌頂せよかし。鍔(種子)。

○寶部繫鬘

ॐ वज्ररत्नस्य अभिसिंहा मणिं ह्रीं

Oṃ vajra-ratna-māla abhiṣiñca māṇi hriḥ.

唵、金剛寶の鬘よ。我れに灌頂せよかし。鍔(種子)。

○蓮華部繫鬘

ॐ वज्रपद्मस्य अभिसिंहा मणिं ह्रीं

Oṃ vajra-padma-māla abhiṣiñca māṇi hriḥ.

唵、金剛蓮華の鬘よ。我れに灌頂せよかし。鍔(種子)。

○羯磨部繫鬘

ॐ वज्रकरस्य अभिसिंहा मणिं ह्रीं

Oṃ vajra-karma-māla abhiṣiñca māṇi hriḥ.

唵、金剛業の鬘よ。我れに灌頂せよかし。鍔(種子)。

○金剛杵、金剛名號……胎藏界に同じ

○持杵眞言

ॐ सर्वतथागतसिंहवज्रसमया तिष्ठत एषा त्वाम् अहम् धारयामि वज्रसत्त्व हे हे हे हे हुम्

Oṃ sarva-tathāgata-siddhi-vajra-samaya tiṣṭha eṣa tvam aham dhārayāmi vajra-sattva he he he he hum.

唵、一切如來成就の金剛本誓よ。汝よ茲に起て、我れ保持せん。

オ、(heは威歎詞) 金剛薩埵よ。吽(種子)。

○寂 災 眞 言

ॐ म ह प च द न व ज र म न

Om sarva-pāpāni dahana vajrāya svāhā.

唵、一切の罪惡は金剛の爲に焚燒されかし。莎訶。

○金 剛 嬉 眞 言

ॐ व ज ल श य ष

Om vajra-lāsyē hoḥ.

唵、金剛嬉よ。護(種子)。

○金 剛 鬘 眞 言

ॐ व ज म ल त र

Om vajra-māle traḥ.

唵、金剛鬘よ、怛羅吒。(種子)。

○金 剛 歌 眞 言

ॐ व ज ग न ष

Om vajra-gīte giḥ.

唵、金剛歌よ。儼(種子)。

○金 剛 舞 眞 言

ॐ व ज व र ष

Om vajra-nṛṭṭe kṛt.

唵、金剛舞よ。託哩吒(種子)。

○金 剛 香 眞 言

ॐ व ज ध प ष

Om vajra-dhūpe aḥ.

唵、金剛燒香よ。阿(種子)。

○金 剛 華 眞 言

ॐ व ज प ष ॐ

Om vajra-puṣpe om.

唵、金剛華よ。唵(種子)。

○金 剛 燈 眞 言

ॐ व ज ल क ष

Om vajra-āloke diḥ.

唵、金剛燈よ、儼(種子)。

○金 剛 塗 眞 言

ॐ व ज ग ष ष

Om vajra-gandhe gaḥ

唵、金剛塗香よ。虐(種子)

已上

384
144

終

